


भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा : बी.कॉम	वर्ष: प्रथम वर्ष	सत्र: 2021-22
विषय: वित्तीय लेखांकन			
1	पाठ्यक्रम का कोड	C1-COMA1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	वित्तीय लेखांकन (प्रश्न पत्र)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर	
4	पूर्वापेक्षा (यदि कोई हो)	सभी के लिए उपलब्ध (Open For all)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, छात्र निम्न में सक्षम होगा: • लेखांकन की मूल बातों का वैचारिक ज्ञान प्राप्त करना • उन घटनाओं की पहचान करें जिन्हें लेखांकन रिकॉर्ड में दर्ज करने की आवश्यकता है • GAAP के अनुसार वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट तैयार करने का कौशल विकसित करना • लेखांकन जानकारी की भूमिका और इसकी सीमाओं का वर्णन करें • एकमात्र व्यापारी के लेखा प्रक्रिया और अंतिम खातों की तैयारी के ज्ञान से लैस • रोकड़ बही और पासबुक शेष के बीच अंतर के कारणों को पहचानें और उनका विश्लेषण करें • त्रुटियों और धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम के लिए प्रदान करने वाली परिस्थितियों को पहचानें	
6	क्रेडिट मान	6	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या 75 (प्रति सप्ताह घंटे में): L:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1	लेखांकन : भारतीय इतिहास। परिभाषा, उद्देश्य, मूल अवधारणाएँ एवं दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत जर्नल प्रविष्टि, खाते, सहायक पुस्तकें, तलपट भारतीय लेखा मानकों के परिचयका विस्तृत अध्ययन समायोजन के साथ अंतिम खाता तैयार करना	15	
2	मूल्य ह्रास के लिए लेखांकन (लेखा मानक 6 के अनुसार), शाखा लेखे,	15	
3	अधिकार शुल्क खाते, विभागीय लेखे	15	
4	गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे, प्रेषण खाते, विनियोग लेखे	15	


 (DR. PAVAN MISHRA)

5	साझेदारी खाते साझेदारी का विघटन दिवालिया सहित साझेदारी फर्मों का एकीकरण , सीमित दायित्व साझेदारी का लेखांकन, फर्म का संयुक्त स्कंध प्रमंडल में परिवर्तन	15	
6	कम्प्यूटरीकृत खाते :किसी भी लोकप्रिय लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके। एक कंपनी बनाना, विन्यास करना और सुविधाओं को सेट करना, लेखांकन बहीखाता और समूह बनाना, स्टॉक मुद्र और समूह बनाना, वाउचर प्रविष्टि(प्रमाणको का रखरखाव के साथ), रिपोर्ट तैयार करना - कैश बुक, खाता बही खाता, परीक्षण शेष, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट	15	
सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग:वित्तीय खाता, मूल्यहास, लेखा मानक, शाखा खाता, रॉयल्टी खाता, साझेदारी खाता, कम्प्यूटरीकृत खाते।			
भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन			
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन			
स. क्र.	लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
1	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल की पुस्तक।		
2	शारदा गंगवार और एच.एन. मिश्रा	वित्तीय लेखांकन का परिचय	हिमालया पब्लि नागपुर
3	शुक्ल डॉ. एस.एम.	वित्तीय लेखांकन	साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
4	अग्रवाल डॉमहेश	वित्तीय लेखांकन	रामप्रसाद एंड संस भोपाल
5	मेहता डॉ. संजय &ब्रह्मभट्ट	वित्तीय लेखांकन	देवी अहिल्या प्रकाशन इंदौर
6	Gupta R.L. and Radhaswamy M	Advance Accounting	S Chand & Sons New Delhi
7	Shukla & Grewal	Financial Accounting	S Chand & Sons
8	Maheshwari S.N.	An Introduction to Accountancy	Vikas publication New Delhi
9	मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस विषय की पुस्तके		


(DR. PAVAN MISHRA)

(DR. PAVAN MISHRA)

2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक

1. <http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/mba/cp-104.pdf>
2. <http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bba/bba-104.pdf>
3. <https://deeppanacademy.com/pdf/cma/foundation/fundamentals-of-accounting.pdf>
4. [https://www.academia.edu/38623012/Financial Accounting IFRS Edition 2e th Jerry J W evgandt](https://www.academia.edu/38623012/Financial_Accounting_IFRS_Edition_2e_th_Jerry_J_W_evgandt)
5. <https://web.ung.edu/media/university-press/Principles-of-Financial-Accounting.pdf?t=1542408454385>

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट (वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय)	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक :25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक 75




(DR. PAVAN MISHRA)

Part A introduction

Programme : Certificate Class:B.COM.1 st Year		Session 2021-22
Subject: Commerce		
	CourseCode	C1-COMA1T
2	Course Title	Financial Accounting
3	Course Type	Core
4	Pre-requisite	Not required open for all
5	Course Learning Outcomes	Successful completion of this course, the student will be able to: • Acquire conceptual knowledge of basics of accounting • Identify events that need to be recorded in the accounting records • Develop the skill of recording financial transactions and preparation of reports in accordance with GAAP • Describe the role of accounting information and its limitations • Equip with the knowledge of accounting process and preparation of accounts of sole trader • Identify and analyze the reasons for the difference between cash book and pass book balances • Recognize circumstances providing for increased exposure to errors and frauds
6	Credit Value	6
7	Total Marks	Max marks : 25+75 Minimum Passing Marks 33

Part B: content of the course

Total No. of Lectures (in hours per week)- 3, Total lectures: 90		
unit	topic	No. of lectures
1.	Accounts :- Indian History . Definition , Objectives ,Basic Concept and Principals of Double Entry System Journal Entry ,Ledger, Subsidiary books ,Trial Balance Introduction of Indian Accounting Standard Final Accounts	15
2.	Accounting for Depreciation (According to Accounting Standard -6) Branch Accounts	15
3.	Royalty Accounts , Departmental Accounts	15
4.	Accounting of Non Profit Organisation , , Investment Account Consignment Accounts	15
5.	Partnership Accounts :- Dissolution of Partnership (with Insolvency), Amalgamation of Partnership Firms, Conversion of Partnership firm in to joint stock Company	15
6.	Computerized Accounts by using any popular accounting software. creating a company, configure and features setting, creating accounting ledgers and groups, creating stock items and groups , vouchers entry (with maintenance of vouchers) , generating report - cash book, ledger accounts, trial balance , profit and loss account and balance sheet	15
Keywords/Tags: financial A/c, Depreciation, Accounting Standard, branch a/c, royalty A/c ,partnership a/c, Computerized Accounts.		


(PROF. PAVAN MISHRA)

Part C learning Resources

1. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल की पुस्तक।
2. Dr. R.K. Sharma/Dr. R.S. Popli, Financial Accounting, Kitab Mahal Pub. Agra
3. Anil, Rajesh & Mariya Financial Accounting Himalya Publication Nagpur
4. Shukla & Grewal, Financial Accounting, S Chand & Sons New Delhi
5. Maheshwari S.N., An Introduction to Accountancy, Vikas publication, New Delhi .
6. Agrawal Dr. Mahesh Financial Accounting, Ramprasad and sons, Bhopal
7. S.M. Shukla, Financial Accounting Shahitya Bhawan Agra.
8. Gupta R.L. and Radhaswamy M, Advance Accounting S Chand & Sons, New Delhi
9. Dr. Ramesh Mangal, Financial Accounting, Satish Printers and Publishers Indore
10. Books published by Madhya Pradesh hindi granth academy

Suggestive digital platforms, web links:

1. <http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/mba/cp-104.pdf>
2. <http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bba/bba-104.pdf>
3. <https://deeppanacademy.com/pdf/cma/foundation/fundamentals-of-accounting.pdf>
4. [https://www.academia.edu/38623012/Financial Accounting IFRS Edition 2e th Jerry J Weygandt](https://www.academia.edu/38623012/Financial_Accounting_IFRS_Edition_2e_th_Jerry_J_Weygandt)


Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks

Internal Assessment :	Class Test	15
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25	Assignment/Presentation	10
External Assessment :	Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)	03 x 03 = 09
University Exam Section: 75	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	04 x 09 = 36
Time : 02.00 Hours		02 x 15 = 30 Total 75


(PROF. PAVAN MISHRA)

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा :बी.कॉम.	वर्ष:प्रथम वर्ष	सत्र:2021-22
विषय:व्यावसायिक नियमन रुपरेखा			
1	पाठ्यक्रम का कोड	CI COMA 21	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	व्यावसायिक नियमन रुपरेखा समूह 2(प्रश्न पत्र 2)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर.)	कोर	
4	पूर्वपिक्षा (यदि कोई हो)	सभी के लिए उपलब्ध (Open For all)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से छात्र- छात्राएं : सामान्य व्यापार कानून के मुद्दों के व्यावहारिक कानूनी ज्ञान प्राप्त करेंगे. एक वैध अनुबंध की अनिवार्यता को समझेंगे, माल की बिक्री और एक बिक्री अनुबंध और उपचारात्मक उपायों के प्रदर्शन के संबंध में विभिन्न कानूनों की समझ प्राप्त होगी, भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभिन्न कानून के साथ विभिन्न उपभोक्ता मंचों के कार्यसेछात्रों को परिचित होंगे तथा साइबर कानूनों के संबंध में अर्थ और विभिन्न विधानों का भी उन्हें ज्ञान होगा..	
6	क्रेडिट मान	6	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में): L: 3			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1	भारत में व्यावसायिक सन्नियमों की एतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872-सामान्य उपबंध		
2	हानि रक्षा एवं प्रतिभूति अनुबंध (धारा 124 से 147 तक)		
3	पराक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 का सामान्य परिचय तथा संशोधित पराक्राम्य विलेख(संशोधन) अधिनियम २००२ का परिचय		
4	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का सामान्य परिचय एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2018 का परिचय एवं वर्णन फेमा		
5	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932		
	सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008,		

Handwritten signature

सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: सभी अधिनियमों के नाम ही की वर्ड है.

भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

स.क्र.	लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशक	प्रकाशन स्थल
1.	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक।			
2.	गंगेन अरुण कुमार एवं अग्रवाल बी.के.	व्यावसायिक सन्निधयम	रामप्रसाद एंड संस	भोपाल
3.	शुक्ल डॉ.एस.एम. और सहाय डॉ.एस.पी.	व्यावसायिक सन्निधयम	SahityaBhawan Publication	Agra
4.	शर्मा जे.पी. एवं कन्नोजिया सुनेना	व्यावसायिक सन्निधयम	हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय .	New Delhi
5.	व्यास डॉ. अनूप & चंदेल	व्यावसायिक सन्निधयम	देवी अहिल्या प्रकाशन	इंदौर
6.	Sharma S.P.	Business Law	I.K. International Publishing House Pvt. Ltd.	Mumbai
7.	Gupta Dr. O.P.	Business regulatory Framework	एसबीपीडी पब्लिकेशन	आगरा
8.	VarshneyDr. G.K.	Business regulatory Framework	SahityaBhawan Publication	Agra

2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:

1. https://sdak24.com/tag/business-law-notes-hindi/#google_vignette
2. <https://www.gkpad.com/2020/09/bcom-books>
3. <https://www.geektonight.com/business-law-notes/>
4. https://www.researchgate.net/publication/331979132_Text_Book_on_Business_Law

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:


अनुशंसितसतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीनपरीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट (वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय)	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक :25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक 75

कोई टिप्पणी/सुझाव:



(DR. PAVAN MISHRA)

Part A introduction

Programme : Certificate Class:B.COM.1 st Year session 2021-22		
Subject: COMMERCE (Business regulatory Framework)		
1	CourseCode	C1 COMA 2T
2	Course Title	Business regulatory Framework (PAPER 2)
3	Course Type	Core
4	Pre-requisite	Not required (open for all)
5	Course Learning Outcomes	The outcome of this course is to provide the students with practical legal knowledge of general business law issues. To Understand the Essentials of A Valid Contract, The Laws Of The Act, Consideration And The Various Modes Of Discharge Of A Contract To Explain the Various Laws with Regard to The Sale of Goods and Performance of a Sale Contract and Remedial Measures, to Familiarize the Students with The Various Law with Regard to Consumer Protection in India And the Functions of Various Consumer Forums and, to Understand the Meaning and The Various Legislations with Regard to The Cyber Laws
6	Credit Value	6
7	Total Marks	Max marks : 25+75 Minimum Passing Marks 33

Part B: content of the course

Total No. of Lectures (in hours per week)- 3, Total lectures: 90		
unit	topic	No. of lectures
1	Historical background of Business laws in India, Indian Contract Act 1872 -GENERAL LAWAS	
2	Contact relating to Indemnity and Guarantee	
3	Negotiable instrument Act 1881 -General Introduction Negotiable instrument(amendment) Act 2002	
4	General introduction of Consumer Protection Act 1986 and 2018, FEMA	
5	Indian Partnership Act 1932-General introduction Limited Liability Partnership Act 2008	
Keywords/Tags: The name of all act is the key word.		

Prinister

Part C learning Resources

Text books:					
s.n.	Author	Book title	publisher	city	
1.	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक।				
2.	Kapoor N.D.	Business Law	S. Chand & compny Ltd.	New Delhi	
3.	शर्मा जे.पी. एवं कर्नोजिया सुनेना	व्यावसायिक सन्निधयम	हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली	New Delhi	
4.	Sharma S.P.	Business Law	I.K. International Publishing House Pvt. Ltd.	Mumbai	
5.	Gupta Dr. O.P.	Business regulatory Framework	एसबीपीडी पब्लिकेशन	आगरा	
6.	Varshney Dr. G.K.	Business regulatory Framework	Sahitya Bhawan Publication	Agra	
7.	Agrawal R.C.	व्यावसायिक नियमन रुपरेखा	एसबीपीडी पब्लिकेशन	आगरा	
8.	गंगोले अरुण कुमार एवं अग्रवाल बी.के.	व्यावसायिक सन्निधयम	रामप्रसाद एंड संस	भोपाल	
9.	शुक्ल डॉ.एस.एम. और सहाय डॉ.एस.पी.	व्यावसायिक सन्निधयम	Sahitya Bhawan Publication	Agra	

1. Suggestive digital platforms, web links:

1. https://sdak24.com/tag/business-law-notes-hindi/#google_vignette
2. <https://www.gkpad.com/2020/09/bcom-books>
3. <https://www.geektonight.com/business-law-notes/>
4. https://www.researchgate.net/publication/331979132_Text_Book_on_Business_Law


Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks

Internal Assessment :	Class Test (objective type or descriptive)	15
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25	Assignment/Presentation	10
External Assessment :	Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)	03 x 03 = 09
University Exam Section:	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 Total
75		75
Time : 02.00 Hours		


(DR. PAVAN MISHRA)